



सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 42]  
No. 42]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 17, 1978/माघ 28, 1899  
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 17, 1978/MAGHA 28, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## वाणिज्य मंत्रालय

### संकल्प

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1978

विषय :— व्यापार संबंधी केन्द्रीय सलाहकार परिषद् का गठन

सं० 15 (1)/78-ई० ए० सो० :—सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने संकल्प सं० 6/8/75-ए० डी० सी० दिनांक 25 सितम्बर, 1976 के अधीन 1 अक्टूबर 1976 से व्यापार बोर्ड का पुनर्गठन किया था और संकल्प सं० 1/2/76-ए० डी० सी०, दिनांक 22 जनवरी, 1977 के अधीन सरकार ने 1 जनवरी, 1977 से दो वर्षों की अवधि के लिए व्यापार संबंधी सलाहकार परिषद् का पुनर्गठन किया था। अब यह दिनिश्चय किया गया है कि व्यापार बोर्ड तथा व्यापार संबंधी सलाहकार परिषद् को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और उनके स्थान पर व्यापार संबंधी सलाहकार परिषद् नामक एक संवैधानिक निकाय गठित किया जाना चाहिए जिसमें विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि हों तथा ऐसे व्यक्ति हों जो बहुत समय से व्यापार में हों और जो वाणिज्य के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हों। तदनुसार, व्यापार संबंधी नई केन्द्रीय सलाहकार परिषद् 15 फरवरी, 1978 से पुनर्गठित की गई है।

2. व्यापार संबंधी केन्द्रीय सलाहकार परिषद् के विचारार्थ विषय, गठन आदि निम्नोक्त प्रकार होंगे :—

### विचारार्थ विषय

व्यापार संबंधी केन्द्रीय सलाहकार परिषद् सरकार को इनसे संबंधित विषयों पर सलाह देगी :—

(1) निर्यात तथा आयात नीति तथा कार्यक्रम ;

- (2) आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रणों का संचालन ;
- (3) वाणिज्यिक सेवाओं का संगठन तथा विकास ; और
- (4) निर्यात उत्पादों का संगठन तथा विस्तार।

### गठन

3. केन्द्रीय सलाहकार परिषद् में 29 सदस्य होंगे जैसा कि संलग्न अनुसूची में दर्शाया गया है। इसकी अध्यक्षता, अध्यक्ष के रूप में वाणिज्य मंत्री द्वारा की जाएगी और उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष के रूप में वाणिज्य राज्य मंत्री द्वारा की जाएगी। परिषद् के सदस्य 15 फरवरी, 1978 से दो वर्षों की अवधि के लिए पद पर रहेंगे।

4. परिषद् को अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित करने का अधिकार होगा। परिषद् का अध्यक्ष समय समय पर परिषद् की बैठकों में ऐसे अन्य व्यक्तियों को भी, जिन्हें आवश्यक समझा जाए, आमन्त्रित कर सकता है।

5. परिषद् का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा, लेकिन यह भारत में किसी भी अन्य स्थान पर अपनी बैठक आयोजित कर सकता है।

6. परिषद् सामान्यतः वर्ष में दो बैठकें करेगी।

7. आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक इस परिषद् के सदस्य-सचिव होंगे।

### अनुसूची

I. व्यापार संबंधी केन्द्रीय सलाहकार परिषद् के सदस्य

- |                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 1. वाणिज्य मंत्री                 | अध्यक्ष   |
| 2. राज्य मंत्री, वाणिज्य मंत्रालय | उपाध्यक्ष |

3. राज्य मंत्री, नागरिक पूर्ति मंत्रालय
4. सदस्य, योजना आयोग (प्रो० राज कृष्ण)

## II—संसद सदस्य

5. दो संसद सदस्य—लोक सभा  
(इनके नाम बाद में अधिसूचित किये जायेंगे)
6. एक संसद सदस्य—राज्य सभा  
(यह नाम बाद में अधिसूचित किया जायेगा)

## III—केन्द्रीय वित्तपोषक संस्थाओं के प्रतिनिधि

7. गवर्नर, रिजर्व बैंक आफ इंडिया, बम्बई।
8. अध्यक्ष, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया, बम्बई।

## IV—वाणिज्यिक तथा औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि—पदेन

9. अध्यक्ष, फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री।
10. अध्यक्ष, एसोसिएटेड चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री आफ इंडिया, नई दिल्ली।
11. अध्यक्ष, आल इंडिया मैनुफैक्चरर्स आर्गनाइजेशन, बम्बई।
12. अध्यक्ष, इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन, कलकत्ता।
13. अध्यक्ष, फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गनाइजेशन, नई दिल्ली।
14. अध्यक्ष, फेडरेशन आफ एसोसिएशन्स आफ स्माल इंडस्ट्रीज आफ इंडिया, नई दिल्ली।
15. अध्यक्ष, इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन, बम्बई।
16. अध्यक्ष, एसोसिएशन आफ इंडियन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, कलकत्ता।
17. अध्यक्ष, वागान संघों की सलाहकार समिति, कलकत्ता।
18. अध्यक्ष, इंडियन ड्रुग्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, बम्बई।
19. अध्यक्ष, सीफूड एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन आफ इंडिया, कोचीन।
20. अध्यक्ष, आल इंडिया शिपर्स कौंसिल, नई दिल्ली।
21. अध्यक्ष, लैबर एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल, मद्रास।

## V—अन्य गैर-सरकारी प्रतिनिधि

22. प्रमुख श्रमिक नेता (श्री बागराम तुलपुले)
23. प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, प्रो० बी० एम० डांडेकर, गोखले इंस्टीट्यूट आफ इकोनॉमिक्स, पुणे।
24. महानिदेशक, नेशनल कौंसिल आफ एपलाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली (पदेन)
25. राज्य निर्यात संगठन के प्रतिनिधि (श्री मधुरावास मेहता, अध्यक्ष, गुजरात एक्सपोर्ट कारपोरेशन, अहमदाबाद)।

26. प्रमुख निर्यात सदन का प्रतिनिधि (श्री बी० नेहरू, प्रबंध निदेशक, टाटा एक्सपोर्ट्स, बम्बई)।

## VI—सरकारी प्रतिनिधि (पदेन)

27. सचिव, वाणिज्य मंत्रालय, नई दिल्ली।
28. विशेष सचिव, वस्त्र विभाग, औद्योगिक विकास मंत्रालय।
29. आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक (सदस्य-सचिव)।

पी० के० कोल, अपर सचिव

## MINISTRY OF COMMERCE

### RESOLUTION

New Delhi, the 17th February, 1978

Subject :—Central Advisory Council on Trade—Constitution of.

No. 15(1)/78-EAC.—Under Resolution No. 6/8/75-AD.C. dated the 25th September, 1976, the Government in the Ministry of Commerce had reconstituted the Board of Trade with effect from 1st October, 1976, and under Resolution No. 1/2/76-A.D.C., dated the 22nd January, 1977, the Government had reconstituted the Advisory Council on Trade for a tenure of two years with effect from 1st January 1977. It has now been decided that the Board of Trade and the Advisory Council on Trade should be abolished and in their place a compact body known as the Central Advisory Council on Trade consisting of representatives from different organisations, and individuals with business standing and expertise in the field of commerce should be constituted. Accordingly, the new Central Advisory Council on Trade has been constituted with effect from 15th February, 1978.

2. The terms of reference, constitution, etc. of the Central Advisory Council on Trade will be as under :—

### Terms of Reference

The Central Advisory Council on Trade will advise the Government on matters relating to :

- (i) export and import policy and programmes ;
- (ii) the operation of import and export trade controls ;
- (iii) organisation and development of commercial services ; and
- (iv) organisation and expansion of export production.

### Constitution

3. The Central Advisory Council will consist of 29 members as shown in the Schedule annexed. It will be presided over by the Minister of Commerce as Chairman and, in his absence, by the Minister of State for Commerce as Vice-Chairman. The members of the Council will hold office for a period of two years with effect from 15th February, 1978.

4. The Council will have powers to co-opt additional members. The Chairman of the Council may also invite to the meetings of the Council such other persons as may be considered necessary from time to time.

5. The Headquarters of the Council will be in New Delhi but it may meet at any other place in India.

6. The Council will ordinarily meet twice a year.

7. The Chief Controller of Imports and Exports will be the Member-Secretary of the Council.

## SCHEDULE

**Members of the Central Advisory Council on Trade**

1. Minister of Commerce—Chairman.
2. Minister of State, Ministry of Commerce—Vice-Chairman.
3. Minister of State, Ministry of Civil Supplies.
4. Member, Planning Commission (Prof. Raj Krishna).

**II. Members of Parliament :**

5. ~~Two~~ <sup>Two</sup> Members of Parliament—Lok Sabha.  
(These names will be notified later)
6. ~~One~~ <sup>One</sup> Member of Parliament—Rajya Sabha.  
(This name will be notified later)

**III. Representatives of Central Financing Institutions :**

7. Governor, Reserve Bank of India, Bombay.
8. Chairman, Industrial Development Bank of India, Bombay.

**IV. Representative of Commercial and Industrial Organisations—Ex-Officio :**

9. President, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, New Delhi.
10. President, Associated Chamber of Commerce and Industry of India, New Delhi.
11. President, All India Manufacturers' Organisation, Bombay.
12. President, Indian Jute Mills Association, Calcutta.
13. President, Federation of Indian Export Organisations, New Delhi.
14. President, Federation of Associations of Small Industries of India, New Delhi.

15. Chairman, Indian Cotton Mills Federation, Bombay.
16. President, Association of Indian Engineering Industries, Calcutta.
17. Chairman, Consultative Committee of Plantation Associations, Calcutta.
18. President, India Drugs Manufacturers' Association, Bombay.
19. President, Seafood Exporters Association of India, Cochin.
20. President, All India Shippers' Council, New Delhi.
21. Chairman, Leather Export Promotion Council, Madras.

**V. Other Non-official Representatives :**

22. Leading Labour leader (Shri Bagaram Tulpule) .
23. Eminent Economist (Prof. V. M. Dandekar, Gokhale Institute of Economics, Pune).
24. Director-General, National Council of Applied Economic Research, New Delhi (Ex-officio).
25. Representative of State Export Organisation (Shri Mathuradas Mehta, Chairman, Gujarat Export Corporation, Ahmedabad).
26. Representative of a Leading Export House (Shri B. Nehru, Managing Director, Tata Exports, Bombay).

**VI. Official Representatives (Ex-officio) :**

27. Secretary, Ministry of Commerce, New Delhi.
28. Special Secretary, Department of Textiles, Ministry of Industrial Development.
29. Chief Controller of Imports and Exports (Member-Secretary).

P. K. KAUL, Addl. Secy.

